

fication schemes sponsored by the State Electricity Boards.

About 3,300 villages were electrified in the country during the period from 1st April, 1974 to 30th September, 1974. These include 147 villages electrified in Himachal Pradesh.

(b) The target is to electrify 11,818 villages in the country during 1974-75. These include 600 villages to be electrified in Himachal Pradesh

**स्वर्गीय श्री बी० के० कृष्ण मेनन द्वारा
चल तथा प्रचल सम्पत्ति की राष्ट्र के
नाम वसीयत ।**

5029 श्री लालजी भाई : क्या प्रधान
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या स्वर्गीय श्री बी० के० कृष्ण
मेनन ने वसीयत की है कि उनका मृत्यु के
पश्चात् उनकी सम्पत्ति चल और प्रचल सम्पत्ति
राष्ट्र को सौंप दी जाये ।

(ख) यदि हा, तो उनकी चल और प्रचल
सम्पत्ति का वसीयत क्या है, और

(ग) क्या उन्होंने अपनी सम्पत्ति में
प्रधान मंत्री अनुवाद किया है कि वह अपनी
इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति का उपयोग कर
सकती है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स
मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती
इन्दिरा गांधी) (क) से (ग)
श्री बी० के० कृष्ण मेनन का वसीयत
जिसपर उद्देश्य 1-10-1974 का हस्ताक्षर
किए थे और जिसे दो गवाहोंने निष्पादित
किया था, 2 नवम्बर 1974 का उनके नहीं
दिल्ली निवास स्थान पर एम. ए. फाफ में
पढ़ी मिली थी। यह उस वसीयत में अलग है जो
अप्रैल, 1974 में निष्पादित की गई थी और
जो 'तरवाद' तथा 'तावशि' चल तथा प्रचल
सम्पत्तियों के संबंध में ही थी। इस वसीयत
में इस प्रकार लिखा गया है ।

'इस वसीयत के द्वारा मैं भारत,
इलड तथा अन्य जगहों पर स्थित अपना
संपूर्ण सम्पत्ति चल तथा प्रचल, सुद
सहित (तरवाद तथा तवशि सम्पत्तियों
जिनकी वसीयत, पहले ही को जा चुकी है)
राष्ट्र के नाम इनके द्वारा वसीयत करता
हूँ ।

'यह मेरा इच्छा है कि राष्ट्र के प्रार
से प्रधान मंत्री जा इसमें को गई वसीयत
कबूल करे और अपने पूर्ण विवेक से जिस
रूप में अथवा जिम उद्देश्य के लिए वे
उचित समझे, काम में लाये ।

चल तथा प्रचल सम्पत्ति के चीकों को
जानकारी अभा नहीं मलाई, दूसरे वसीयत में
के द्वारा नामांकित व्यक्तियों की, उपरो-
लिखित तरवाद तथा तवशि सम्पत्ति को
वसीयत का गई है ।

**Regional Offices under Commissioner
for SC and ST**

5030 SHRI SAKTI KUMAR
SARKAR:

SHRI P. M. SAYEED:

SHRI S. M. SIDDAYYA:

Will the Minister of HOME
AFFAIRS be pleased to state

(a) whether the Ministry of Law
has opined that Commissioner for
Scheduled Castes and Scheduled Tri-
bes should collect all data required by
him through officers appointed direct-
ly under him and answerable to him
alone, in order to ensure that he is
able to collect information according
to uniform norms laid down by him,
and

(b) if so, what action has been
taken to let the Commissioner for
Scheduled Castes and Scheduled
Tribes, appointed under a constitu-
tional provision, collect information
required by him through an indepen-
dent field organisation directly under